

## අළු කුර්ආනය භාරිසරික ගැටළු ගැන කතා කර තිබේ ද?

"තथा धरती में उसके सुधार के पश्चात् बिगाड़ न पैदा करो, और उसे भय और लोभ के साथ पुकारो। निःसंदेह अल्लाह की दया अच्छे कर्म करने वालों के करीब है।" [256] [सूरा अल-आराफ़ : 56]

"जल और थल में लोगों के हाथों की कमाई के कारण बिगाड़ फैल गया है, ताकि वह (अल्लाह) उन्हें उनके कुछ कर्मों का मज़ा चखाए, ताकि वे बाज़ आ जाएँ।" [257] [सूरा अल-रूम : 41]

"तथा जब वह वापस जाता है, तो धरती में दौड़-धूप करता है ताकि उसमें उपद्रव फैलाए तथा खेती और नस्ल (पशुओं) का विनाश करे और अल्लाह उपद्रव को पसंद नहीं करता।" [258] [सूरा अल-बकरा : 205]

"और धरती में आपस में मिले हुए विभिन्न खंड हैं, तथा अंगूरों के बाग़, खेती और खजूर के पेड़ हैं, कई तनों वाले और एक तने वाले, जो एक ही जल से सींचे जाते हैं, और हम उनमें से कुछ को स्वाद आदि में कुछ से बढ़ा देते हैं। निःसंदेह इसमें उन लोगों के लिए निश्चय बहुत-सी निशानियाँ हैं, जो सूझ-बूझ रखते हैं।" [259] [सूरा अल-रअद : 4]

ලක්ෂ්‍යය පිළිබඳ ජර්ජන හා පිළිතුරු

☎☎☎☎☎: <https://www.2026-2026.2026/22/22/2026/97/>

☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: <https://www.2026-2026.2026/22/22/2026/97/>

☎☎☎☎☎☎☎ 2322 22 222 2026 09:25:09 22